



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2006/फाल्गुन 18, 1927

No. 93]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2006/PHALGUNA 18, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2006

सा.का.नि. 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (1) और धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 233 ख की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखा संपरीक्षक रिपोर्ट नियम, 2001 तथा 610 क में और संशोधन निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट नियम, 2006 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट नियम, 2001 में—
 - 1) नियम 4 के उप-नियम 2 के पश्चात निम्नलिखित उप-नियमों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“3 इन नियमों में विहित प्रपत्रों को इलैक्ट्रॉनिकी मीडिया या किसी अन्य पठनीय मीडिया जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610 क में निर्दिष्ट है, के अनुसार भरा जाए।
 4. इलैक्ट्रॉनिकी प्ररूप को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन यथा परिभाषित अंकीय हस्ताक्षरों को उपयोग करते हुए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
 5. इन प्ररूपों में विहित प्रपत्रों को जब प्ररूप को भरा जाएगा तो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उन्हें अधिप्रमाणित करेगा।”
- (11) लागत संपरीक्षा रिपोर्ट के प्रपत्र, प्ररूप II— लागत लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट के शीर्षक के स्थान पर प्ररूप में रखा जाएगा।
- (11) विद्यमान प्ररूप के पूर्व, निम्नलिखित प्ररूप को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्

प्ररूप I

केन्द्रीय सरकार को लागत संपरीक्षा रिपोर्ट तथा
अन्य दस्तावेज भरने के लिए प्ररूप

(कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा
233ख(4), 600(3)(ख) और लागत संपरीक्षा
रिपोर्ट नियम, 2001 के नियम 2 (ग) तथा
नियम 4 के अनुसरण में)

टिप्पण - * चिन्हित सभी स्थानों को अवश्य भरा जाय ।

I. कम्पनी की सामान्य जानकारी

1(क). * कम्पनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) या
कम्पनी का विदेशी कम्पनी रजिस्ट्रेशन संख्या

(ख). कम्पनी का विश्व अवस्थिति संख्या

2(क). कम्पनी का नाम

(ख). कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या भारत
में व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता

3. लागत संपरीक्षा रिपोर्ट संबंधित है :

(क). * उद्योग का नाम

(ख). * उत्पाद या कार्यकलाप

(ग). केन्द्रीयीय उत्पाद शुल्क अध्याय शीर्ष

(घ). * इकाई का नाम और स्थान

(ङ). * राज्य जहां इकाई स्थित है

(च). * वित्त वर्षतारीख सेतारीख तक

4. * संदर्भ (सी.ए.आर. अनुबंध 1.5 देखें) के अंतर्गत निर्माण, या उत्पादन या भेजने या उत्पाद का
खनन या कार्य पूरा करने के अन्य स्थलों का स्थान

5(क). * लागत संपरीक्षक का आयकर पैन नं.

(ख). * लागत लेखा परीक्षक या फर्म का नाम

(ग). * लागत लेखा परीक्षक की परीक्षक की सदस्यता की सं.

6. * लागत संपरीक्षा आदेश सं. तारीख
7. * लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति के अनुमोदन वाले नातेदार प्ररूप 23 सी का सर्विस अनुरोध नं. (एसआरएन)..... तारीख
8. * क्या लागत संपरीक्षा रिपोर्ट अर्ह हो गयी है या प्रतिकूल टिप्पणियां की गयी हैं
..... हां नहीं
9. * जिस अवधि से लागत संपरीक्षा रिपोर्ट संबंधित है, उस के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेने-देन किया गया है हां नहीं

II. * मात्रात्मक सूचना (निर्देश के अंतर्गत उत्पाद या कार्यकलाप के लिए)

माप की एकक (यूओएम)

क्र. सं.	विवरण	सीएआर अनुबंध संदर्भ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	कुल उपलब्ध मात्रा	4.3		
2.	कुल उत्पादन मात्रा	4.5		
3.	उपयोगिता क्षमता प्रतिशततः	4.7		
4.	कुल उपलब्ध मात्रा	4.9		
5.	बद्ध रूप से खपत हुई मात्रा	4.10		
6.	देशी विक्रीत मात्रा	4.11 (क + ख)		
7.	निर्यात की गई विक्रीत मात्रा	4.11 (ग + घ + ङ)		
8.	बन्द स्टॉक (तैयार माल)	4.12		

III. निर्यात प्रतिबद्धता (राशि हजार रु. में) - [लागत संपरीक्षक के अनुसार - पैरा 3 (छ)]

(क). निर्यात प्रतिबद्धता (ख). निर्यात प्रतिबद्धता के प्रति वास्तविक निर्यात.....

IV. * प्रति एकक निवेश सामग्री के मानक/वास्तविक अपभोग (निर्देश के अंतर्गत उत्पाद या कार्यकलाप के लिए)

क्र. सं.	विशिष्टियां	एकक (दर्शाएं)	मानक (मात्रा/इकाई)	वास्तविक (मात्रा/एकक)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	प्रति एकक इनपुट सामग्री की खपत (अनुबंध 5 (ख) - प्रमुख इनपुट सामग्री अवयवों के ब्यौरे दर्शाएं)				
1					
2					
3					
4					
5					
	प्रति एकक विद्युत, ईंधन तथा उपयोगिताओं की खपत [(अनुबंध 7 (ख))]				
1					
2					
3					
4					
5					

V. * लागत संपरीक्षा रिपोर्ट महत्वपूर्ण सूचना (निर्देश के अंतर्गत उत्पाद या कार्यकलाप के लिए)

क्र. सं.	विवरण	सीएआर अनुबंध निर्देश	इकाई (दर्शाएं)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	कुल कर्मचारी लागत	8 बी .6	हजार रू. में		
2	कुल मरम्मत और रख रखाव	9.5	हजार रू. में		

3	मिश्रित अवमूल्यन	10.5	हजार रु. में		
4	कुल उपरिव्यय	12 (1 से 4)	हजार रु. में		
5	कुल अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	13.5	हजार रु. में		
6	तकनीकी जानकारी प्रभार	14.5	हजार रु. में		
7	कुल गुणवत्ता नियंत्रण व्यय	15.6	हजार रु. में		
8	कुल प्रदूषण नियंत्रण व्यय	16.6	हजार रु. में		
9	कुल असामान्य गैर-आवर्ती लागत	17	हजार रु. में		
10	कुल अन्त्य स्टाक	18. (ए). 10	हजार रु. में		
11	अचल स्टाक का कुल मूल्य	18. (ए). ई 3	हजार रु. में		
12	अन्त्य स्टाक का अचल स्टाक	18. (ए). ई 4	प्रतिशत		
13	कुल बट्टे खाते डाला गया स्टाक	18.(बी). 5	हजार रु. में		
14	लागत लेखाओं के अनुसार माल सूची को कुल मूल्य	19. (ए). 10	हजार रु. में		
15	वित्तीय लेखाओं के अनुसार मालसूची का कुल मूल्य	19. (ए). 11	हजार रु. में		
16	देश में उत्पाद की अनुमानित मांग	22.2			

17	देश में कुल उत्पादन	22.3			
18	देश में आयातित मात्रा	22.4			
19	कुल अन्तर्देशीय उत्पादन में कम्पनी का प्रतिशत शेयर	22.6	प्रतिशत		
20	शुद्ध विक्रय (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	23.3	हजार रु. में		
21	स्टाक में समायोजना	23.4	हजार रु. में		
22	खरीदी गयी सामग्रियों की लागत और सेवाएं	23.5	हजार रु. में		
23	मूल्य वर्धित	23.6	हजार रु. में		
24	नियोजित पूंजी (उत्पादन के लिए)	24.1	हजार रु. में		
25	शुद्ध मूल्य (उत्पाद के लिए)	24.2	हजार रु. में		
26	उत्पाद के लिए लाभ या हानि	24.3	हजार रु. में		
27	शुद्ध विक्रय के प्रतिशत के रूप में प्रचालन व्यय				
क.	सामग्री की लागत	24.5 ए	प्रतिशत		
ख.	फैक्ट्री उपरिव्यय	24.5 बी	प्रतिशत		
ग.	उत्पादन पर स्वामित्व	24.5 सी	प्रतिशत		
घ.	वेतन एवं मजदूरी	24.5 डी	प्रतिशत		
ङ	अनुसंधान एवं विकास व्यय	24.5 ई	प्रतिशत		

च	क्वालिटी नियंत्रण	24.5 एफ	प्रतिशत		
छ.	प्रशासनिक उपरिव्यय	24.5 जी	प्रतिशत		
ज.	विक्रय और वितरण	24.5 एच	प्रतिशत		
झ.	ब्याज	24.5 आई	प्रतिशत		
28	लाभ या हानि नियोजित पूंजी की प्रतिशतता के रूप में	24.6	प्रतिशत		
29	शुद्ध मूल्य के प्रतिशतता के रूप में लाभ या हानि	24.7	प्रतिशत		
30	शुद्ध विक्रय के प्रतिशतता के रूप में लाभ या हानि	24.8	प्रतिशत		
31	शुद्ध विक्रय के प्रतिशतता के रूप में अतिरिक्त मूल्य	24.10	प्रतिशत		
32	उत्पाद शुल्क (ईडी) सदेय	27. घ. 1	हजार रु. में		
33	सेनक्टे के माध्यम से अदा किया गया उत्पाद शुल्क - निवेश	27. घ. 2.क.	हजार रु. में		
34	केनवाट के माध्यम से अदा किया गया उत्पाद शुल्क - पूंजीगत माल	27.घ.2.ख.	हजार रु. में		

35	व्यक्तिगत खाता बही	27.घ.2.ग.	हजार रु. में		
36	कुल	27.घ.2	हजार रु. में		

VI. * उत्पादन का प्रति एकक अंतर (निर्देश के अंतर्गत उत्पाद या कार्यकलाप के लिए) - अनुबंध 21

क्र. सं.	विवरण.	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष			
		विक्रय की लागत (रू./ इकाई)	विक्रय वसूली (रू./ इकाई)	अन्तर (रू. / इकाई)	विक्रय की लागत (रू./ इकाई)	विक्रय वसूली (रू./ इकाई)	अन्तर (रू. / इकाई)	
	क्रीत मालहां नहीं	यदि हां तो प्रमुख उत्पादों के विवरण				
1.								
2.								
	पट्टा पर आधारित उधार हां नहीं	यदि हां तो प्रमुख उत्पादों के विवरण				
1.								
2.								
	स्व विनिर्मित हां नहीं	यदि हां, तो प्रमुख उत्पादों के विवरण				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

संलग्नक**संलग्नकों की सूची**

1. * लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम
2. अन्य संलग्नक - यदि कोई हो

घोषणा

मेरी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास में, इस प्ररूपमें दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सत्य और पूर्ण हैं।

हमें निदेशक बोर्ड के तारीख/मास/वर्ष..... के प्रस्ताव इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय हस्ताक्षर किया जाय

प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव (यदि भारतीय कम्पनी है) या प्राधिकृत (यदि कम्पनी विदेशी है)

कम्पनी का निदेशक

लागत संपरीक्षक

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

[फा. सं. 1/6/2005-सीएल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.ति संख्यांक 924 (अ) तारीख 27.12.2001 को प्रकाशित किए गए थे।

103 GI/06-3

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2006

G.S.R. 148(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 233B read with sub-section (1) of section 227 and clause (b) of sub-section (1) of section 642 and section 610A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Audit Report Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cost Audit Report (Amendment) Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.
2. In the Cost Audit Report Rules, 2001, -
 - (i) after sub-rule 2 of rule 4, the following sub-rules shall be inserted, namely: -
 - “3. The Forms prescribed in these rules may be filed through electronic media or through any other computer readable media as referred under section 610A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
 - (4) The electronic-form shall be authenticated by the authorized signatories using digital signatures, as defined under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
 - (5) The Forms prescribed in these rules, when filed in physical form, may be authenticated by authorized signatory by affixing his signature manually.”
 - (ii) in the Form for the heading “FORM OF THE COST AUDIT REPORT”, “FORM II – THE COST AUDIT REPORT” shall be substituted;
 - (iii) before the existing form, the following form shall be inserted.

FORM I

Form for filing cost audit report and other documents with the Central Government

[Pursuant to section 233B(4), 600(3)(b) of the Companies Act, 1956 and rule 2(c) and rule 4 of the Cost Audit (Report) Rules, 2001]

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.**I. General information of the company**

1(a). *Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number of the company



(b). Global location number (GLN) of company

2(a). Name of the company

(b). Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company

3. Cost audit report (CAR) pertains to:

(a). *Name of the industry

(b). *Product or activities

(c). Central excise tariff chapter heading

(d). *Name and location of the unit

(e). *State where unit is located

(f). *Financial year

From

(DD/MM/YYYY)

To

(DD/MM/YYYY)

4. *Location of other sites manufacturing or producing or processing or mining the product or carrying out the activity under reference (refer CAR annexure 1.5)

5(a). *Income-tax permanent account number of cost auditor

(b). *Name of the cost auditor or firm

(c). *Membership number of cost auditor

6. *Cost audit order number

dated

(DD/MM/YYYY)

7. *Service request number (SRN) of relevant Form 23C seeking approval of appointment of the cost auditor

dated

(DD/MM/YYYY)

8. *Whether the cost audit report has been qualified or contains adverse remarks

☐ Yes☐ No

9. *Whether there is any transaction with the related parties during the period to which the cost audit report pertains

☐ Yes☐ No

II. *Quantitative information (for the product or activity under reference)

Unit of measurement (UoM)

S.No.	Particulars	CAR annexure reference	Current year	Previous year
1.	Total available capacity	4.3		
2.	Total production quantity	4.5		
3.	Capacity utilisation percentage	4.7		
4.	Total available quantity	4.9		
5.	Quantity captively consumed	4.10		
6.	Quantity sold (domestic)	4.11 (a+b)		
7.	Quantity sold (exports)	4.11 (c+d+e)		
8.	Closing stock (finished goods)	4.12		

III. Export commitments (amount in Rs. thousands) - [As per cost auditor's certificate - para 3(g)]

A. Export commitments B. Actual exports towards export commitment

IV. *Standard and actual consumption per unit (for the product or activity under reference)

S.No.	Particulars	Unit (specify)	Standard (Quantity/ unit)	Actuals (Quantity/ unit)	
				Current year	Previous year
	Consumption of input materials per unit [Annexure 5(B)] - Specify details of major input materials, components				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Consumption of power, fuel and utilities per unit [Annexure 7(B)]				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

V. *Key information from Cost Audit Report (for the product or activity under reference)

S.No.	Particulars	CAR annexure reference	Unit (specify)	Current year	Previous year
1.	Total employee costs	8B.6	Rs. in thousands		
2.	Total repairs and maintenance	9.5	Rs. in thousands		
3.	Depreciation absorbed	10.5	Rs. in thousands		
4.	Total overheads	12 (1 to 4)	Rs. in thousands		
5.	Total research and development expenses	13.5	Rs. in thousands		
6.	Total royalty and technical know how charges	14.5	Rs. in thousands		
7.	Total quality control expenses	15.6	Rs. in thousands		
8.	Total pollution control expenses	16.6	Rs. in thousands		
9.	Total abnormal non-recurring costs	17	Rs. in thousands		
10.	Total closing stock	18.(A).e2	Rs. in thousands		
11.	Total value of non-moving stock	18.(A).e3	Rs. in thousands		
12.	Non-moving stock to closing stock	18.(A).e4	Percentage		
13.	Total written off stock	18.(B).5	Rs. in thousands		
14.	Total value of inventory as per cost accounts	19.(A).10	Rs. in thousands		
15.	Total value of inventory as per financial accounts	19.(A).11	Rs. in thousands		
16.	Estimated demand of the product in the country	22.2			
17.	Total production in the country	22.3			
18.	Quantities imported in the country	22.4			
19.	Percentage share of the company in total inland production	22.6	Percentage		
20.	Net sales (excluding excise duty)	23.3	Rs. in thousands		
21.	Adjustments in stocks	23.4	Rs. in thousands		
22.	Cost of bought out materials and services	23.5	Rs. in thousands		
23.	Value added	23.6	Rs. in thousands		
24.	Capital employed (for the product)	24.1	Rs. in thousands		
25.	Net worth (for the product)	24.2	Rs. in thousands		

703GI/06-4

S.No.	Particulars	CAR annexure reference	Unit (specify)	Current year	Previous year
26.	Profit or Loss for the product	24.3	Rs. in thousands		
27.	Operating expenses as a percentage of net sales (for the product)				
(a).	Material cost	24.5a	Percentage		
(b).	Factory overheads	24.5b	Percentage		
(c).	Royalty on production	24.5c	Percentage		
(d).	Salaries and wages	24.5d	Percentage		
(e).	Research and development expenses	24.5e	Percentage		
(f).	Quality control	24.5f	Percentage		
(g).	Administrative overheads	24.5g	Percentage		
(h).	Selling and distribution	24.5h	Percentage		
(i).	Interest	24.5i	Percentage		
28.	Profit or Loss as a percentage of capital employed	24.6	Percentage		
29.	Profit or Loss as a percentage of net worth	24.7	Percentage		
30.	Profit or Loss as a percentage of net sales	24.8	Percentage		
31.	Value addition as a percentage of net sale	24.10	Percentage		
32.	Excise duty (ED) payable	27.D.1	Rs. in thousands		
33.	ED paid through cenvat - inputs	27.D.2.a	Rs. in thousands		
34.	ED paid through cenvat - capital goods	27.D.2.b	Rs. in thousands		
35.	Personal Ledger Account (PLA)	27.D.2.c	Rs. in thousands		
36.	Total	27.D.2	Rs. in thousands		

VI. *Margin per unit of output (for the product or activity under reference) - Annexure 21

S. No.	Particulars	Current Year			Previous Year		
		Cost of sales (Rs./ unit)	Sales realisation (Rs./ unit)	Margin (Rs./ unit)	Cost of sales (Rs./ unit)	Sales realisation (Rs./ unit)	Margin (Rs./ unit)
	Purchased goods	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	If yes, specify details of major products			
1.							
2.							
	Loan license basis	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	If yes, specify details of major product			
1.							
2.							
	Own manufactured	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	If yes, specify details of major product			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Attachments

1. *Cost audit report as per the Cost Audit (Report) Rules, 2001

Attach

2. Optional attachment(s) - if any

Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

To the best of our knowledge and belief, the information given in the form and its attachments is correct and complete.

We have been authorised by the board of directors' resolution dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To be digitally signed by

Managing director or director or manager or secretary (In case of an Indian company) or an authorised representative (In case of a foreign company)

Director of the company

Cost auditor

Modify

Check Form

Prescribing

Submit

For office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer



Submit to EO

[F. No. 1/6/2005-CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No 924 (E) dated 27-12-2001.